

## My Typical Day

हर सुबह मैं सात बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। नहा-धोकर मैं करीब आठ बजे नाश्ता करती हूँ। फिर घर से निकल के बस स्टॉप तक चलती हूँ। वहाँ से मैं नौ बजे की बस पकड़ती हूँ जो मुझे मेरे दफ्तर तक ले जाती है। मैं दफ्तर करीब साढ़े नौ बजे पहुँचती हूँ। फिर हम सब साढ़े नौ से साढ़े बारह बजे तक काम करते हैं। साढ़े बारह बजे हम भोजन करते हैं। दफ्तर में भोजन का समय साढ़े बारह से षेढ़ बजे तक है। षेढ़ बजे के बाद हम फिर से काम करने लगते हैं, और करीब सवा पाँच बजे तक काम करते रहते हैं। साढ़े पाँच बजे दफ्तर बंद होता है। लेकिन कई लोग वहाँ काम खत्म करने के लिए एक-दो घण्टा और रुक जाते हैं। मैं अक्सर सात बजे घर के लिए रवाना होती हूँ। घर पहुँच कर मैं थोड़ा आराम करती हूँ, और फिर अपने लिए भोजन बनाती हूँ। साथ ही मैं अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करती हूँ और टी.वी. भी देखती हूँ। यह सब करते करते शाम बीत जाती है। मैं करीब ग्यारह बजे सोने चली जाती हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन सवेरे जल्दी उठना होता है।

Every morning I wake up at 7 o'clock and start my day. After bathing, I eat breakfast at about eight o'clock. Then I leave home and walk to the bus stop. From there, I catch the nine o'clock bus which takes me to my office. I reach the office at about half-past-nine. Then all of us work from half-past-nine until half-past-twelve. We eat lunch at half-past-twelve. At the office, lunchtime is from half-past-twelve to half-past-one. At half-past-one, we start work again, and continue to work until about quarter-past-five. The office closes down at half-past-five, but several people stay back for an hour or two more to finish their work. I often start for home at seven o'clock. After returning home, I rest for a while, and then cook dinner for myself. At the same time, I talk to my friends on the phone and also watch T.V. The evening goes by doing all this. I go to bed at about eleven o'clock, since I need to wake up early the next morning.